SWADESHI POLYTEX LIMITED

Regd Office: Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.) Tele/Fax: +91-120-2701472, Email: info@splindia.co.in, Website: www.splindia.co.in

CIN: L25209UP1970PLC003320

15th February, 2023

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400-001

Ref: Scrip Code No 503816

Dear Sir,

<u>Subject: Newspaper Clippings of Un-audited Financial Results for the quarter ended</u> 31st December, 2022

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Un-audited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 approved in the Board Meeting held on Monday, 13th February, 2023 was published today i.e. 15th February, 2023 in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

We submit herewith newspaper clippings for the same.

Request you to please take the above information on records.

Yours Faithfully,

For SWADESHI POLYTEX LIMITED

Anuradha Sharma Company Secretary Membership No: A51838



Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

Ph: 91 (120) 4609000, 2470800 Fax: 91 (120) 4963122 Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website: www.jaypeeinfratech.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2022

(₹ in lacs except EPS

	1	Standalone Results					Consolidated Results						
S.	Particulars		Quarter Ended		Nine Months Ended Year Ended		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
No	. I di tiodidis	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total Income from Operations	22,057	18,524	21,397	68,264	54,769	78,601	31,266	27,561	29,476	94,619	77,040	107,910
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or extraordinary items)	(60,290)	(61,058)	(52,353)	(176,466)	(162,286)	(232,095)	(60,124)	(63,548)	(54,003)	(182,503)	(168,332)	(242,212)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(60,290)	(61,058)	(52,353)	(176,466)	(162,286)	(232,095)	(60,124)	(63,548)	(54,003)	(182,503)	(168,332)	(241,346)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(60,290)	(61,058)	(52,353)	(176,466)	(162,286)	(232,095)	(60,124)	(63,548)	(54,003)	(182,503)	(168,332)	(241,346)
5	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	(60,290)	(61,058)	(52,354)	(176,466)	(162,289)	(232,094)	(60,123)	(63,551)	(53,990)	(182,494)	(168,311)	(241,311)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	-	(694,966)	-	-	-	-	-	(720,001)
8	Earnings per Share (of ₹ 10/- each) for continuing and discontinued operations (not annualised):												
ш	- Basic (In ₹)	(4.34)	(4.40)	(3.77)	(12.71)	(11.68)	(16.71)	(4.33)	(4.58)	(3.89)	(13.14)	(12.12)	(17.38)
	- Diluted (În ₹)		(4.40)	(3.77)	(12.71)	(11.68)	(16.71)	(4.33)	(4.58)	(3.89)	(13.14)	(12.12)	(17.38)
Note	which is pending adjudication. In the interim, in view of the assignment of loan by YES Bank Ltd. to J.C. Flowers Ass								Flowers Asset				

1 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter/ nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the guarter /nine months ended on 31st December, 2022 are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.jaypeeinfratech.com). The items referred in the regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to National Stock Exchange of India Limited and BSE limited and also available on company's website.

The Standalone Results of the Company comprise of only one segment i.e. Yamuna Expressway Project, an integrated and indivisible project which inter-alia includes construction, operation and maintenance of Yamuna Expressway and rights for land development of 25 million sq. mtrs. along the expressway.

The Company, has been undergoing Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") since 09.08.2017 in terms of the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") vide order dated 09.08.2017 and 14.08.2018 passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT") Allahabad read with order dated 09.08.2018 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 744/2017 and order dated 06.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Jaiprakash Associates Ltd. & Anr. Vs. IDBI Bank Ltd. & Anr. (Civil Appeal bearing Diary No.

27229 of 2019 and Civil Appeal No. 6486 of 2019). The Hon'ble Supreme Court in the Civil Appeal Diary No(s). 14741/2020 between Jaypee Kensington Boulevard Apartments Welfare Association & Ors. Vs NBCC (India) Ltd & Ors. vide its order dated 06.08.2020 transferred all the pending appeals/cases with NCLAT to itself and directed the IRP to continue to manage the affairs of the Company. Further, the Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 24 March 2021 has directed the Interim Resolution Professional (IRP) to complete the CIRP within the extended time of 45 days from the date of this judgment by inviting modified/fresh resolution plans from Suraksha Realty Limited along with Lakshdeep Investments and Finance Private Limited ("Suraksha Group") and NBCC only, giving them time to submit the same within 2 weeks from the date of this judgment. It is made clear that the IRP shall not entertain any expression of interest by any other person nor shall be required to issue any new

information memorandum. Accordingly, The IRP invited fresh/ modified Resolution Plan from NBCC and Suraksha Group. Consequently, both applicants submitted their bids on 07.04.2021. Upon discussion of said resolution plan in CoC from time to time, both applicants revised their bids. Subsequently, the CoC approved the Final Resolution Plan submitted by Suraksha Group dated June 7, 2021 (read with its addendum) on June 23, 2021 and has been submitted to the Hon'ble NCLT principal bench Delhi on 07.07.2021. Objections were filed by ICICI bank, Yamuna Expressway Industrial Development Authority, Jaiprakash Associates Limited and others against the approved Resolution Plan of Suraksha group with Hon'ble NCLT.

Principal Bench, Delhi. At present, the matter is reserved for orders/clarifications by Hon'ble NCLT, Principal Bench... The IRP is currently managing the operations of the Company and accordingly, the financial results have been prepared on going concern basis.

- As per Hon'ble Supreme Court order dated 24.03.2021, the sum of ₹750 crores which was deposited by Jaiprakash Associates Ltd.(JAL) pursuant to the orders passed by it, in the case of Chitra Sharma, and accrued interest thereupon, stood transferred to NCLT and will be subjected to reconciliation of accounts between JAL and company which will be taken up under the supervision of NCLT by independent accounting expert and NCLT shall pass appropriate orders in the manner that, if any amount is found receivable by JIL/homebuyers of JIL, the same shall be made over to JIL from out of the said amount of ₹750 crores and accrued interest; and remainder thereof shall be returned to JAL in an appropriate account. The Hon'ble NCLT vide order dated 31.03.2021 appointed Grant Thornton Bharat LLP (GT) as the independent accounting expert for carrying out the reconciliation, which has submitted its final report to Hon'ble NCLT. At present, the Matter is reserve for order before Hon'ble NCLT Principal Bench Delhi.
- Yes Bank Limited had issued a "Loan Recall Notice" to Jaypee Healthcare Limited (JHCL) vide its letter dated 08th Nov'19. Subsequently, Yes Bank Ltd. also filed an Application under section 7 IBC bearing CP (IB) No. 512/ALD/2019 before Honble NCLT, Allahabad Bench against JHCL for repayment of the loan outstanding amount. Matter was taken up and arguments at length of both the Parties were heard from 06.01.2022 to 17.01.2022. Hon'ble NCLT, Allahabad Bench vide its Order dated 27th June 2022 held that the proceedings in the matter be kept in abeyance till the Order on the Resolution Plan in IA-2836/2021 in CP-77/2017 is passed by the Hon'ble NCLT Principal Bench, New Delhi Based on the same, further course of action will be embarked upon in the present Application. However, JHCL was directed to ensure timely payment of the loan installment as per the available sources with it and work out a suitable plan to extinguish its liabilities failing which, Yes Bank Ltd. was given liberty to take any action as per law with respect to enforcement of any collateral security included in the loan agreements. Matter before Hon'ble NCLT, Allahabad Bench is now listed on 17th Feb'23. Meanwhile, Yes Bank Ltd. has also approached NCLAT, Principal Bench, New Delhi vide Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 873 of 2022 against Hon'ble NCLT, Allahabad Bench Order dated 27th June 2022

Reconstruction Private Limited (assignee), the bench proceeded to pass the order on the last date of hearing i.e. 23rd Jan'23 permitting the Assignee to file relevant application for continuation of Appeal. The Appeal is now listed for 22nd Feb'23 for further proceedings. As directed by Hon'ble NCLT, Allahabad Bench vide its order dated 27th June 2022, JHCL has submitted it's Debt Restructuring Plan ('DRP') to extinguish it's debt to Yes Bank Ltd. Limited (now J.C. Flowers Asset Reconstruction Private Limited, the Assignee) vide its letter dated 27.07.2022. The DRP was presented by JHCL to the consortium of lenders in the last Joint Lenders Meeting held on 17th Aug'22 with a request to consider the same. Lenders asked JHCL to seek shareholder/Interim Resolution Professional (IRP) consent on the proposed plan. Accordingly, JHCL has sent a Letter dated 7th Oct' 22 to the IRP of the Company, seeking concurrence of IRP/JHCL's shareholders on the DRP. Currently, JHCL is in discussion with the IRP of the Company for the required approval.

The total income from operations is inclusive of revenue from land for development aggregating to ₹1778.48 Lakh and ₹ 11922.94 Lakh for the guarter and nine months ended 31.12.2022 respectively.

As the power of Board of Directors have been suspended, the above result have not been approved by the Board of Directors. However, the same have been reviewed and signed by IRP, Shri Anuj Jain on February 13, 2023 for filing with the stock exchange. Presently the company does not have any CFO (resigned on 31.07.2020) or CEO.

Yamuna Expressway Project has been part financed by consortium of Lenders led by IDBI Bank Limited. IDBI Bank Limited, as lender's agent of consortium on behalf of all consortium lenders excluding ICICI Bank Limited (assignors) have assigned a facilities provided by the lenders to the JIL vide Common Loan Agreement dated 30th April 2015, Facility Agreement dated 30th April 2015, security Trustee Agreement dated 30th April 2015, Novation Deed, Takeout Finance Agreement dated 22nd May 2015, Deed of Hypothecation dated 25th May 2015, personal Guarantee dated 25th May 2015 (as amended) to National Assets Reconstruction Company Limited (assignee) vide Joint Assignment Agreement dated 20th January 2023. Pursuant to the Joint Assignment Agreement dated 20th January 2023, the assignee shall step into the shoes of the assignors for all intent and purposes under the said facility agreement, security trustee agreement and all other facility documents containing all the terms and conditions, representations, warranties, covenants and principal relatives to the assignment of loans and all other rights, title and interest under the financing documents and to the underlying security interests, pledges and guarantees in respect to such loans. Presently, the Company has disclosed outstanding loans and interest in financial results as per balances appearing in its Books of Accounts as per agreements with respective banks/financial institutions. Finance Cost is inclusive of Interest on debt aggregating to ₹ 70404.57 Lakh and ₹ 202509.34 Lakh for the quarter and nine months ended 31.12.2022 respectively, which shall be restated on implementation of the Resolution Plan approved by the Adjudicating Authority.

The Company reviewed the deferred tax assets/ liabilities on temporary differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purpose at reporting date. However, since the Company was under CIRP, there is virtual uncertainty of taxable profits in near future and availability of deferred tax assets to be set off. Accordingly, the deferred tax (net assets) for the reporting period i.e. April 1, 2022 to December 31, 2022 have not been considered.

The privately placed listed Non Convertible Debentures (NCD) aggregating to ₹ 33813.51 Lakh (including outstanding interest of ₹ 12618.51 Lakh) as on 31st December, 2022 are secured by way of exclusive charge /mortgage on 124.73 acres of land situated at Land parcel 4 i.e. Tappal, Dist. Aligarh, Uttar Pradesh, Security Cover available as on 31st December, 2022 is 60% (based upon distressed fair value) of Principal and Interest amount outstanding of Secured Non-Convertible Debentures. The company has not been able to maintain the security cover as stated in the Information Memorandum/Debenture Trust Deed since the Company is undergoing Corporate Insolvency Resolution Process. The NCD holder i.e. Axis Bank has filed a claim in respect of NCD and is a "Financial Creditor" for the outstanding amount and the dues will be settled upon implementation of Resolution Plan approved by the Adjudicating Authority.

The outbreak of corona virus (COVID-19) pandemic globally and in India caused significant disturbance and slowdown of economic activity. Due to the lockdown announced by the Government, the Company's operations were suspended/ slowed down for some part of the year ended March 31, 2022 and accordingly financial results for the period ended December 31, 2021 have been adversely impacted and are therefore not comparable with those for the current periods. The operations and economic activities have gradually resumed with requisite precautions.

12 The figures for the guarter ended 31 December, 2022 represents the balancing figures between the reviewed figures of the nine months ended 31 December, 2022 and the published year to date figures up to September 30, 2022.

13 The previous quarters/nine months/ year figures have been reworked/regrouped/rearranged wherever necessary to conform with those of current quarter/ nine months/year.

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

(Interim Resolution Professional) IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306

CIN: L27109DL1972PLC319974 Regd. Office: Flat No. 702, 7th Floor, Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi -110001 Phone: +91 11 23310001-05, Email: hcsIndl@yahoo.co.in, Website: www.psteelltd.com

PRADYUMNA STEELS LIMITED

FOR THE ATTENTION OF THE HOLDERS **OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

FINAL REMINDER CUM FORFEITURE NOTICE (Last date for payment: Saturday, 04.03.2023)

- The Board of Directors of the Company, in its meeting held on 13th February, 2023, has approved issuance of a 'Final Reminder cum Forfeiture Notice' to the 18 partly paid-up equity shareholders holding 14,125 shares who have yet not paid the call money of Rs. 1/- per
- 2. The Company has sent the Final Reminder cum Forfeiture Notice dated 14.02.2023 to the holders of partly paid-up equity shares who
- have yet not paid the call money. The holders of partly paid-up equity shares may note that in the event of failure to pay the call money along with interest thereon, if any on or before 04.03.2023, the partly paid-up equity shares (including the amount already paid thereon) held by them shall be liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.
- The Final Reminder cum Forfeiture Notice together with the instructions and Payment Slip, can be downloaded from the website of the Company at www.psteelltd.com.
- Please read the instructions set out in the Final Reminder cum
- Forfeiture Notice before making payment. The holders of partly paid-up equity shares may seeks clarification on any query related to the payment of call money by email to himanshu.singh@hindusthan.co.in.
- 7. This Final Reminder cum Forfeiture Notice is solely intended for payment of call money by the holders of partly paid-up equity shares who have not yet paid the call money. This notice does not constitute an offer for solicitation of an offer to purchase or sell any securities of the Company For Pradyumna Steels Limited

Date: 14.02.2023 Place: New Delhi (Murari Lal Birmiwala) Director DIN: 00642510

SWADESHI POLYTEX LIMITED Regd. Office: Kavi Nagar, Indsutrial Area, Ghaziabad - 201002, Uttar Pradesh

CIN: L25209UP1970PLC003320, Phone No. 0120 2701472, EMAIL ID: info@splindia.co.in Statement of Unaudited Financial results for the Quarter and

nine months ended on December 31, 2022

			(Rupees	in Lakhs)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
140.			31.12.2022 Unaudited	
1 6	Income	100	62	
	a) Revenue from Operations	994.98	2,812.63	
La.	b) Other Income	66.43	144.68	3.93
1.	Total Income	1,061.41	2,957.31	3.93
2.	Total Expenses	87.46	220.38	39.27
3.	Profit bofore exceptional items	973.95	2,736.93	(35.34)
3a	EBTIDA	974.33	2,738.08	(34.97)
4.	Profit before tax	973.95	2,736.93	(35.34)
5.	Total Tax expenses	186.29	523.68	(9.85)
6.	Net Profit after tax	787.66	2,213.25	(25.49)
7.	Profit from Discontinued		-	
8.	Paid-up Equity Share Capital	390.00	390.00	390.00
9.	Earnings per Equity Share	1	3	
	a) Basic (in Rs.)	2.02	5.67	(0.07)
	b) Diluted (in Rs.)	2.02	5.67	(0.07)

Notes:

 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their held on 13th February, 2023

In Line with the provisions of Ind 108 'Operating Segments' as notifed under the Companies (IndAS) Rules 2015 and as provided in Section 133 of the Companies Act, 2013, the operations of the company fall under the head " Real Estate", which is considered to be the only reportable segment by the Management.

By order of the Board Gaurav Swarup

FORM NO. INC-26" [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspape for change of registered office of the Company

from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION

n the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

PREPLADDER PRIVATE LIMITED aving its registered office at 7th Floor, Plot No. Sector 22, IT Park, Panchkula.

Harvana-134109

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 17th June, 2022 to enable the Company to change its Registered Office from the "State of Harvana" to the "Union Territory

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver eitheron the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regiona Director, Northern Region, B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within (14) fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the

Registered office: 7th Floor, Plot No. 16, Sector 22, IT Park, Panchkula, Haryana-134109

"FORM NO. URC-2" Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act. [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of subsection (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Delhi that Cellgen Biopharma LLP, a LLP registered under

LLP Act, 2008 may be registered under Part 1 o

Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a

The Principal objects of the company are as follows:

To manufacture, formulate, process, develop refine, import, export, wholesale and/or retail

trade all kinds of pharmaceuticals, antibiotics,

For and on behalf of

Abhishek Pipara

Director DIN: 08996985

PREPLADDER PRIVATE LIMITED

of Chandigarh"

iddress mentioned below:

Dated: 14.02.2023

Place : Panchkula

.Applicant Company/Company

Chairman

Dated: 13.02.2023 Place: Ghaziabad DIN:00374298

Bhilwara Technical Textiles Limited

Date: 13th February, 2023





STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022 (₹ in Lacs Except per share data)

	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	(Quarter Ende	d	Nine Mor	Nine Months Ended Year End		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	2 31.12.2021 d Un-Audited	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited		Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from Operations	395.53	382.46	543.38	1,247.14	1,618.55	2,039.32	395.53	382.46	543.38	1,247.14	1,618.55	2,039.32
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	76.06	65.99	66.06	177.87	159.17	171.40	76.06	65.99	66.06	177.87	159.17	171.40
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	76.06	65.99	66,06	177.87	159.17	171.40	76.06	65.99	66.06	177.87	159.17	171.40
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items & Share of profit of Associates)	59.14	37.47	54.33	126.99	130.93	148.17	(246.45)	32.69	409.21	(177.96)	1,762.06	1,733.85
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	59.02	40.01	55.51	125.26	132.11	149.78	(224.72)	33.80	425.11	(203.19)	1,818.32	1,754.64
Equity Share Capital	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in balance sheet of the previous year						1,477.85						15,033.69
Earning Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing operation) (not annualised except for year ended results)												
Basic (₹ per share)	0.10	0.07	0.09	0.22	0.22	0.25	(0.42)	0.06	0.70	(0.30)	3.02	2.97
Diluted (₹ per share)	0.10	0.07	0.09	0.22	0.22	0.25	(0.42)	0.06	0.70	(0.30)	3.02	2.97

Notes:

- 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 14th February, 2023. The Statutory Auditor has reviewed the results for the guarter and nine months ended December 31, 2022.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company's activities constitute a single business segment.
- 4. The above is an extract of the detailed format of reviewed financial result for the quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.bttl.co.in).
- 5. In relation to an Associate, the Power Purchase Agreement (PPA) with Discom, in respect of solar power, expired on March 31, 2019. The Discom has not yet renewed the PPA. The Company is pursuing for Power Purchase Agreement (PPA) with DISCOM, in terms of RERC order dated 5th March 2019 @ ₹3.14 per Kwh, applicable to developers covered under the REC scheme for balance project life. Useful life is 25 years irrespective of the year of commissioning. As per said order, Discoms may execute PPAs for balance useful life of the project with project developers willing to sell power under REC mechanism to them. Since Company has exported power to DISCOM during the period, accordingly, Company has continued to recognise Revenue from Sale of Power of ₹ 139.98 Lacs, during the nine months ended December 31 2022, as the Management of the company believes that PPA will be signed. Matter is sub judice before the Honourable Rajasthan High Court. Total unbilled revenue on account of solar power as at March 31, 2022 was ₹ 554.50 Lacs.
- The figures of the previous period / year have been regrouped / recasted wherever considered necessary.

By Order of the Board

For Bhilwara Technical Textiles Limited

Shekhar Agarwal Chairman & Managing Director and CEO DIN No.: 00066113 in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the

Name(s) of Applicant

company at its registered office.

AKHIL GUPTA (Designated Partner)

2. RAGHVENDRA SINGH KUSHWAH

Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841, Website: www.bttl.co.in, E-mail:bttl.investor@lnjbhilwara.com Registered Office: LNJ Nagar, Mordi, Banswara, Rajasthan - 327001 Phone: +91-2961-231251-52,+91-2962-302400, Fax: +91-2961-231254

CIN: L18101RJ2007PLC025502

Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P)

Place: Noida (U.P.)

Date: 14th February, 2023

New Delhi

this application may communicate their objection

3. ANSHITA GARG (Designated Partner)

drugs, medicines, biological, neutraceuticals, healthcare, ayurvedic and dietary supplement products, medicinal preparations, vaccines, chemicals, chemical products. To establish and run health portal, web sites medical transcription centers, data processing computer centers, retail chains, e-commerce, and

company limited by shares.

to offer wholesale, retail, e-commerce facilities, health constancy and data processing and other services that are normally offered by health portal web sites, medical transcription centers, data processing/computer centers, retail chains, etc. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be

inspected at the office at SF-1 & 3 SF, RISHABH IPEX MALL CSC PATPARGANJ, OPPOSITE MAX HOSPITAL DELHI, EAST DELHI, DELHI Notice is hereby given that any person objecting to

Dated this 15" day of February, 2023

(Designated Partner

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद (उ.प्र.) सीआईएन:L25209UP1970PLC003320 फोन: 0120 2701472 ईमेलः info@splindia.co.in, वेबसाइटः www.splindia.co.in

31, दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही / नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रू. लाख में)

큙.	विवरण	समाप्त	समाप्त	समाप्त
₹.		तिमाही	नौमाही	तिमाही
`''			31.12.2022	31.12.2021
	आय	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
	अ) संचालन से राजस्व	994.98	2 042 62	
	3.		2,812.63	2.02
	ब) अन्य आय	66.43	144.68	3.93
1.	कुल आय	1,061.41	2,957.31	3.93
2.	कुल खर्च	87.46	220.38	39.27
3.	असाधारण सामग्री और कर से पूर्व लाम	973.95	2,736.93	(35.34)
3 3	ईबीआईटीडीए	974.33	2,738.08	(34.97)
4.	कर पूर्व लाम	973.95	2,736.93	(35.34)
5.	कुल कर व्यय	186.29	523.68	(9.85)
6.	कर के बाद शुद्ध लाभ	787.66	2,213.25	(25.49)
		-	- 0	-
7.	बंद से लाभ	390.00	390.00	390.00
8.	प्रति इविवटी शेयर आय			
9.	क) मूलमूत (रू. में)	2.02	5.67	(0.07)
	ख) द्रव (फ. में)	2.02	5.67	(0.07)

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों की अनुमोदित किया गया।

2. कंपनी (इंडएएस) नियम 2015 के तहत अधिसूचित इंडस्ट्रीज 108 ऑपरेटिंग सेंगमेंट के प्रावधानों के अनुयप और कंपनी अधिनियत 2013 की धारा 133 में प्रदान किए गए अनुसार कंपनी का संचालन 'रियल एस्टेट' शीर्ष के अंतर्गत आता है, जिसे प्रधन द्वारा एकमात्र रिपोर्ट योग्य खंड माना जाता है।

> बोर्ड की ओर से स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड हस्ता / – गौरव स्वंरूप (डीआईएन): 00374298

क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र) 11वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 from to day स्वर्ण आभूषण नीलामी सूचना नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतदवारा सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस बैंक को बिना सुपुर्दगी वापस कर दिए गए हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे देनदारी और अन्य शुक्कों का मुगतान करें और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को 10.03.2023 को या उससे पहले छुडा लें, ऐसा न करने पर उक्त प्रतिभृतियों को बैंक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बैंक के परिसर में उधारकर्ता की लागत पर दिनांक 18.03.2023 को पूर्वाइ 11:00 बजे या उसके बाद किसी भी सुविधाजनक तिथि पर बिना किसी सुचना के बैंक के पूर्ण विवेक पर बेचा जाएगा। ऋण की तिथि ऋण खाता संख्या उधारकर्ता का नाम और पता मालवीय नगर 29.12.2021 76830600000927 श्री जय प्रकाश, मकान नं. 65, समयपुर बादली रेलवे रोड, दिल्ली - 110042 दिनांक: 13.02.2023, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक शास्त्रा कार्यालय : जीएचके नगर M-503, गरा हरकिशन नगर नई दिल्ली-110087 टेलिफोन: 011-25259647 ईमेल: d0845@psb.co.in

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा जीएचके नगर (D0845) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित रु.13,88,836.00 / - (शब्दों में रुपए तेरह लाख अट्ठासी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) तथा अग्रिम ब्याज और अन्य शुल्क क भूगतान करने के लिए कर्जदार, गारंटर एवं कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती विनीता संबरवाल, श्रीमती जसवन्ती, श्री प्रमोद कुमार, श्री विक्रम एवं श्रीमती ममता गोठवाल को बुलाने के लिए दिनांक 30.11.2022 को मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार तथा गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहें, एतद्द्वारा कर्जदार, गारंटर और सर्वसाधारण को एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स एवं सर्वसाधारण को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उपरोक्त अनुसार लागत व ब्याज के साथ उक्त खाते में राशि **रु.14,06,856/— (शब्दों में रुपए** चौदह लाख छः हजार आठ सौ छप्पन मात्र) तथा अग्रिम ब्याज और अन्य शुल्क की राशि के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (4) के अंतर्गत

उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर 9 फरवरी 2023 को कब्जा ले

अचल संपत्ति का विवरण उप—पंजीयक दिल्ली में पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 4242 में विलेख पंजीकरण संख्या 21230 के माध्यम से फ्लैट नं. 127, ब्लॉक डी, पॉकेट 8, सेक्टर 6 रोहिणी, दिल्ली—85 स्थित संपत्ति के

सभी भाग और अंश। दिनांक: 09-02-2023,

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR:** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS. Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT** PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF **SARAI:** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCK

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING. Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT. KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING. Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING. Ph.: 9810680954. 9953526681. GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399. GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR. Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact : ROHIT JOSHI 9818505947. ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED

स्थान: नई दिल्ली

Registered Office: S-550-551, School Block Part-2 Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi-110092

CIN: L51311DL1998PLC093690 Website: www.sharikaindia.com, E.mail id: cs@sharikaindia.com

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter and nine months ended on December 31, 2022

[In terms of regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, As Amended]

(Rs in hundreds) Standalone Consolidated For the quarter ended Nine Months ended Year Ended For the quarter ended Nine Months ended Year Ended Sr. **Particulars** December No. December September December December December March December September December December March 31, 31, 2021 30, 2022 31, 2021 31, 2021 31, 2022 31, 2022 30, 2022 31, 2022 31, 2021 31, 2022 31, 2022 2022 (Audited) Audited Unaudited 2.215.961.00 Total Revenue from operations 1,787,659 467,003 962,016 2.903.850 2,212,975 3.962,657 1,787,659.00 472,168.00 964,578.00 2.914.592.00 3.966.616 Net Profit/(Loss) for the period before tax and Extraordinary items (239,566.87) 65,410 (18,022)(247,884)96,445 (480.695)(98,535)101,615 94,706.00 (480,135.06) (106,527.00 (27,756.19) Net Profit/(Loss) for the period before tax and after Extraordinary items (8.268)(249.222)96,839 (468.660)(97,353)83,715 (27,756.19) (239.566.87) 94,698.00 (481,105.06) (173,605.00) (14.871)(8, 268)80,817 (18,002.46)(240,904.51) (469,070.33) (172,423.00)Net Profit/(Loss) for the period after tax (249, 222)96.839 (468,660)(97,353)95,092.00 (32,771)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) (172,423.00) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (8.268)96.839 80,817 (35.669.00)(249, 222)(468,660)(97,353)(18,002.46)(240,904.51) 95.092.00 (469,070.33) 2,165,000.00 2,165,000.00 2.165.000.00 2,165,000.00 2,165,000.00 2,165,000.00 2,165,000.00 2.165.000.00 2,165,000.00 2,165,000.00 2.165,000.00 2,165,000.00 Equity paid up share capital Earnings per share: (0.02)(0.58)(0.02)0.22 0.19 Basic (₹) 0.22 (1.08)(0.22)0.19 (0.58)(1.08)(0.22)0.22 0.19 Diluted (₹) (0.02)(0.58)0.22 (1.08)(0.22)0.19 (0.02)(0.58)(1.08)(0.22)

available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the company website www.sharikaindia.com.

Place: Noida

Date: 14th Febraury 2023

Notes:

स्थान : गाजियाबाद

दिनांकः 13.02.2023

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th Februaray, 2023. The Statutory auditors have carried out Limit Review of these financial results The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for ninemonths ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Results are

> For Sharika Enterprises Limied Sd/

> > Rajinder Kaul Managing Director

GOODFYEAR

GOODYEAR INDIA LIMITED

CIN: L25111HR1961PLC008578 Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

			•			,	(Rs. In Lakhs)
	Particulars	Current 3 months ended (31/12/2022)	Preceding 3 months ended (30/09/2022)	Corresponding 3 months ended (31/12/2021)	Year to date figures for current period ended (9 Months) (31/12/2022)	Year to date figures for Corresponding period ended (9 Months) (31/12/2021)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2022)
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	69,296	77,155	61,182	228,765	185,612	245,889
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,306	3,622	2,661	11,972	11,512	13,845
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,306	3,622	2,661	11,972	11,512	13,845
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,441	2,710	1,945	8,925	8,550	10,289
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	2,364	2,645	1,887	8,869	8,361	10,131
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.						81,650
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised): a) Basic (Rs.)	10.58	11.75	8.43	38.69	37.07	44.61

b) Diluted (Rs.)

1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website a www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations. 2 The unaudited standalone financial results has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS

11.75

8.43

38.69

37.07

10.58

34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

3 The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes &


4 The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in

5 This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023. The financials results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and they have expressed an unmodified conclusion thereon.

For GOODYEAR INDIA LIMITED

44.61

Sandeep Mahajan Chairman & Managing Director



कैसा कि, अधोहरताक्ष्मी ने वित्तीय आदिवर्षों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 200 के निवम 3 के साथ पठित निवम 13(12) के तहते प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोला साइसिंग फडनेंस लि.) (आईआईएचएफएल) का अधिकत पाधिकारी होने के नाते. कामनी के अधिकत पाधिकारी द्वारा नीचे वर्णित कर्जदार्से/सक-कर्जदा मुचना में उस्लिखित राशि का कथित सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्श्वरतन करने को कहते हुए याँग सुचना निर्मत की गयी थी। कर्मदार रं कि का पुनर्भगतान करने में असकल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसमान्य को सचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने व्यथित निर्वो र नेवम 8 के साथ पटित कवित निवम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में तीचे वर्षित सम्मित पर कच्च कर लिया है। एतहा वेशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्बन्धि के साथ किसी प्रकार का संध्ययहार न करने की चेशायनी दी जाती है और सम्पन्धि के साथ को पंच्यवतार ज्यान सहित नीचे वर्णित के लिए. **आईआईएवएफएल** के अभियोग का विषय होगा।

तिषि से पूर्व किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं किये गये व्ययों सहित "आ**ईआईएफएल एवएफएल**" के वकायों को अदा कर देता है तो आईआईएसइफ्स्ल" डारा प्रतिभूत आरितयों की विक्री य अन्तरण नहीं किया नायेगा और प्रतिभूत आरितयों के अन्तरण या विक्री हेतु आईआईएचएफएल" हम कोई कदम नहीं उठाया जावेगा।

कर्जवन्द्र ने)/यह-कर्जवाये का नम	प्रतिभूत आणित (अबल सम्पति) का वियसग	कुल बकावा गीरा (स.)	र्यांग मृद्यना	करता करने
भी अवयं कृपार पित्री श्रीमती माला पित्रा (प्रॉप्सेक्ट रे. II,10065076)	प्लॉट पर विभिन्न मकान का सम्पूर्ण चाग, कारपेट वर्गिया माप 632 वर्ग औट नचा भूमि क्षेत्रफल माप 651 वर्ग औट, खलता नं. 363 किन, प्राम भूतर व्याहं हैदरनंज, जन्मनाह, उत्तर प्रदेश, भारत 226010	सः २०,52,658/- (रुपये कील लाख कावन इत्यार छः त्वै प्रयोग माथ)	की लिख 21-नय- 2022	वर्ग निर्मा 11- पत्र - 2023
v6 6 > 6			<u> </u>	Ц.

s/s, विश्वति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010/अथका कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. १६, फेन-IV, उद्योग पिहार, गुरुगाम, हरियाणा इ./- अधिकत प्राधिकारी, कते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड स्थान : लखनऊ दिनोक : 15.02.2023

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त ''अधिनियम'') के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंर लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालयः भूखंड सं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हे निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट

- 1		om पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध					
- 1	ऋणकर्ता(ओं) /	मांग सूचना तिथि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य		
ı	सह—ऋणकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) के नाम 1. श्री विनोद कुमार वर्मा 2. श्रीमती ज्योति वर्मा		परिसंपत्ति का विवरण	02—फरवरी—2023	₹. 12,10,000 / − (रुपये बारह		
			संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो	तिथि 06-फरवरी-2023 के	लाख दस हजार मात्र)		
- 1			~	अनुसार कुल बकाया			
- 1			111, 112 11 111, 1111 1111 00110 11	₹. 22,60,705 /-	धरोहर राषि जमा (धराज)		
- 1	(प्रोस्पेक्ट नं.		मीटर, खसरा सं. 43/5, राज नगर-2,	(रुपये बाईस लाख साठ			
- 1	IL10131591)	बोली वृद्धि राषि	पालम कॉलोनी, ग्राम–पालम, दक्षिण	हजार सात सौ पांच मात्र)	रु. 1,21,000/ — (रुपये एक		
- 1		₹. 25,000/-	पश्चिम दिल्ली—110077		लाख इक्कीस हजार मात्र)		
- 1		(रुपये पच्चीस हजार मात्र)			,		
1	संपत्ति के	निरीक्षण की तिथि	धराज अंतिम तिथि	ई—नीलामी की तिथि/समय			
- 1	17—मार्च—2023	3 को 11.00—14.00 बजे	20—मार्च—2023 को 5 बजे तक	23—मार्च—2023 11.00—13.00 बजे			
भुगतान का माध्यमः सभी भुगतान "आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित गुरुग्राम में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी व							

से किए जाएंगे। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:– आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम – स्टैंडर्ड चार्टर बैंक लि., ग) खाता सं.: 9902879 उसके बाद लोन नंबर, घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

1. ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेत् लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भूगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे। . बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को स्तंभ ''बोली वद्धि राषि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान

किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। 3. सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथ बोली राषि की शेष 75 प्रतिषत रुकम प्रतिभत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भगतान

जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे। १. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लाग स्टांप शल्क, शल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम्

कर. विद्युत प्रभारों, भिम एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भगतान वहन करना होगा।

5. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तत नियमों एवं शर्तों तथ

नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com वक https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। 6. विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी support@bankeauctions.com

सहायता हेल्पलाइन नंबर्स: /7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं। '. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न/पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499

पर सोमवार से शक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से लेकर के साय 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई–मेल: auction.hl@iifl.com पर मेल लिखें। 8. एतदृद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक अधिग्रहण किये जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगी. अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत उत्तरदायी नहीं होगी। . एतदद्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने/समेटने में विफल रहते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा।

10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भूगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।

11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी में किसी विवाद की स्थित में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सचना ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें

भगतान करने में विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी / उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों. यदि कोई निकलती हों, की वसली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। स्थान : दिल्ली, हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, दिनांक : 15-फर.-2023 आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com

Place: New Delhi

Date: February 14, 2023